



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 1982/फाल्गुन 24, 1903

No. 48] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 1982/PHALGUNA 24, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिभ्रदायगी सां. सू. 26/82

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1982

फा. सां. 600/2503/81-प्र. अं.—सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियम, 1971 के नियम 4 के अंतर्गत (भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 25 अगस्त 1971 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 52 फा. सं. 602/2/70-प्र. अं.) केन्द्र सरकार सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिभ्रदायगी/सां. सू. 20 दिनांक 1 जून 1981 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

6. उपक्रमांक 2503 के दूसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) धागा अन्तर्वस्तु पर प्रतिभ्रदायगी तभी दी जायगी यदि निर्यातकर्ता संबंधित सहायक गमाहर्ता की तसल्ली के लिए साक्ष्य देता है कि धागे के संबंध में, जिसके लिए बाधा किया गया है, धागे के निर्माता द्वारा विरोध किए बिना उपयुक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की भ्रदायगी कर दी गयी है।”

2. उपक्रमांक 2507 के बाद विद्यमान ‘व्याख्या’ के स्थान पर निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात्:—

“व्याख्या :—उपक्रमांक 2506 की मव (ख) और 2507 के लिए इस शर्त पर प्रतिभ्रदायगी दी जायेगी कि निर्यातकर्ता संबंधित सहायक गमाहर्ता की तसल्ली के लिए साक्ष्य देता है कि उम धागे के संबंध में, जिसके लिए प्रतिभ्रदायगी का बाधा किया गया है, धागे के निर्माता द्वारा विरोध किए बिना ही उचित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रदा कर दिया गया है और यह कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत कोई छूट नहीं ली गई है। अन्य मामलों में यथास्थिति, उपक्रमांक 2506 (क) और 2507 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों पर प्रति भ्रदायगी देय होगी।

3. उपक्रमांक 2605 के सामने “प्रतिभ्रदायगी की दर, स्तंभ में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“इन उपक्रमांकों के सामने दी गयी शर्तों के अधीन रहते हुए यथास्थिति धागा अन्तर्वस्तु की दर एम० एस० 2503 और/अथवा 2505(1 और 2) के अनुसार और सिर्फ तंतु अन्तर्वस्तु की दर एम० एस० 2602 के अनुसार।

4. उपक्रमांक 2609 (ii) के सामने 'प्रतिप्रदायगी की दर' स्तम्भ में उपक्रमांक 2602 शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायगा, अर्थात्:—

"बशर्ते कि घागा अन्तर्वस्तु पर प्रतिप्रदायगी तभी दी जायगी यदि निर्यातकर्ता संबंधित सहायक समाहर्ता की तसल्ली के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि घागे के संबंध में, जिसके लिए प्रति प्रदायगी का दावा किया गया है, घागे के निर्माता द्वारा विरोध किए बिना उपयुक्त केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की प्रदायगी की गयी है।"

5. उपक्रमांक 2612 के साथ उपाबद्ध मौजूदा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण:—उपक्रमांक 2611 और 2612 के अधीन उल्लिखित दरों से उदायगी उस स्थिति में की जाएगी यदि निर्यातकर्ता सम्बन्धित सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत कर दे कि घागे के निर्माता द्वारा घागे के सम्बन्ध में समुचित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रदायगी विरोध प्रकट किए बिना कर दी गई हो और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अधीन कोई रिबेट प्राप्त नहीं की हो। अन्य मामलों में प्रति प्रदायगी यथास्थिति उपक्रमांक 2506 (क) अथवा 2507 (क) के अधीन उल्लिखित दरों से देय होगी।"

6. स्तम्भ 'प्रति प्रदायगी की दर' में उपक्रमांक 2710 के सामने, "उपक्रमांक सं० 2603" जहां कहीं शब्दों में विनिर्दिष्ट है, के पश्चात् जहां कहीं वे आए "बशर्ते उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों" शब्दावली जोड़ी जाए।

7. स्तम्भ 'प्रति प्रदायगी की दर' में उपक्रमांक 2711 के सामने "जो उपक्रमांक सं० 2505 और 2508 में विनिर्दिष्ट है" शब्दों और शर्तों के पश्चात् "बशर्ते उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों" शब्दावली जोड़ी जाएगी।

8. स्तम्भ 'प्रति प्रदायगी की दर' में उपक्रमांक 2719 के सामने "इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट उचित दरें" शब्दावली के बाद "बशर्ते उनमें उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों" शब्दावली जोड़ी जाएगी।

9. स्तम्भ 'प्रतिप्रदायगी की दर' में उपक्रमांक 2805 के सामने 'यथा विनिर्दिष्ट दर' शब्दावली के पश्चात् "बशर्ते उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों" शब्दावली जोड़ी जाएगी।

10. उपक्रमांक 2806 तथा उससे सम्बन्धित प्रावष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"टिप्पणी:—घागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में प्रति प्रदायगी इस शर्त के के अधीन की जाएगी कि निर्यातकर्ता सम्बन्धित सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करे कि जिस घागे के सम्बन्ध में प्रति प्रदायगी का दावा किया गया है, उसके निर्माता द्वारा विरोध प्रकट किए बिना समुचित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रदा कर दिया गया हो।"

11. इस सार्वजनिक सूचना में की कोई भी बात हथकरघा/विद्युत्करघा मूल के माल के निर्यात पर लागू नहीं होगी। यह सार्वजनिक सूचना जून 1981 के प्रथम दिन को लागू हुई समझी जाएगी।

जी० आर० शर्मा, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE NO. DRAWBACK/PN. 26/82

New Delhi, the 15th March, 1982

F. No. 600/2503/81-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification

No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extra ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-20/81, dated the 1st June, 1981:—

1. The following proviso shall be added after second proviso to sub-serial No. 2503, namely:—

"(iii) the drawback on account of yarn content shall be paid, if the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector concerned that in respect of yarn, for which drawback is claimed, appropriate central excise duty has been paid without protest by the manufacturer of yarn."

2. For the existing 'Explanation' after sub-serial No. 2507, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"Explanation.—The drawback for items (b) of sub-serial Nos. 2506 and 2507 shall be paid subject to the condition that the exporter produces evidence, to the satisfaction of Assistant Collector concerned that in respect of yarn, for which drawback is claimed, appropriate central excise duty has been paid without protest by the manufacturer of yarn and that no rebate has been obtained under the Central Excise Rules, 1944. In other cases drawback at the rates under items (a) of sub-serial No. 2506 and 2507, as the case may be, shall be payable."

3. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 2605 for the existing entry, the following shall be substituted namely:—

"Rate of yarn content as per sub-serial No. 2503 and/or 2505 (1 and 2) and fibre content only as per sub-serial No. 2602, as the case may be, subject to the conditions, if any mentioned against these sub-serial Numbers."

4. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 2609 (ii), after the words 'sub-serial No. 2602' following shall be added namely:—

"Subject to the condition that the drawback on account of yarn (other than filament, yarn) content, shall be paid if the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector concerned that in respect of yarn for which drawback is claimed, appropriate central excise duty has been paid without protest by the manufacturer of the yarn."

5. The existing "Explanation" appended to sub-serial No. 2612 shall be substituted by the following namely:—

"Explanation.—Rates under sub-serial No. 2611 and 2612 shall be paid if the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector concerned that in respect of yarn, appropriate central excise duty has been paid without protest by the manufacturer of yarn and no rebate has been obtained under the Central Excise Rules, 1944. In other cases drawback at the rates under sub-serial Nos. 2506(a) or 2507(a), as the case may be, shall be payable."

6. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 2710 after the words and figures "sub-serial No. 2603", wherever they occur the words and expressions "subject to the conditions mentioned therein" shall be added.

7. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 2711, after the words and figures "sub-serial No. 2505 and 2508" the words and expressions "subject to the conditions mentioned therein" shall be added.

8. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 2719, in the opening para, after the words and expressions, "elsewhere in this schedule" the words and expressions, "subject to the conditions mentioned therein" shall be added.

9. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 2805, after the words "sub-serial No. 2603", the following

words and expressions, "subject to the conditions mentioned therein" shall be added.

"Note.—Payment of drawback on account of yarn content sub-serial No. 2806 and the entries relating thereto, namely :—

"Note.—Payment of drawback on account of yarn content shall be subject to the condition that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector concerned that in respect of yarn, for which drawback is claimed, appropriate central excise duty

has been paid without protest by the manufacturer of yarn."

11. Nothing contained in this public notice shall apply to export goods of Handloom/Powerloom origin.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1981.

G. R. SHARMA, Dy. Secy.

